



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092023-248618  
CG-DL-E-06092023-248618

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3805]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2023/भाद्र 15, 1945

No. 3805]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2023/BHADRA 15, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2023

का.आ. 3967(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 15 की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, की यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति की हॉलमार्किंग (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2020 में, उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ज़िला
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	1. अनंतपुर
		2. अन्नमय्या
		3. डॉ. वीआर अंबेडकर कोनासीमा
		4. पूर्वी गोदावरी
		5. एलुरु
		6. गुंटूर
		7. कडपा
		8. कृष्णा
		9. कुर्नूल
		10. एनटीआर
		11. नांदयाल
		12. नेल्लोर
		13. प्रकाशम
		14. श्रीकाकुलम
		15. विशाखापत्तनम
		16. विजयनगरम
		17. पश्चिम गोदावरी
2	असम	1. बारपेटा
		2. बोंगईगांव
		3. कछार
		4. जोरहाट
		5. कामरूप मेट्रो
		6. नगांव
		7. तिनसुकिया
		8. शिव सागर
3	बिहार	1. बेगूसराय
		2. भागलपुर
		3. भोजपुर
		4. बक्सर
		5. दरभंगा
		6. पूर्वी चंपारण
		7. गया

		8. खगड़िया
		9. किशनगंज
		10. मधुबनी
		11. मुंगेर
		12. मुज़फ्फरपुर
		13. नालन्दा
		14. नवादा
		15. पटना
		16. रोहतास
		17. समस्तीपुर
		18. सारन
		19. सीतामढ़ी
		20. सहरसा
		21. सिवान
		22. मधेपुरा
		23. पूर्णिया
4	चंडीगढ़	1. चंडीगढ़
5	छत्तीसगढ़	1. बिलासपुर
		2. दुर्ग
		3. रायपुर
		4. राजनंदगांव
6	दिल्ली	1. केन्द्रीय दिल्ली
		2. पूर्वी दिल्ली
		3. नई दिल्ली
		4. उत्तरी दिल्ली
		5. उत्तर पश्चिम दिल्ली
		6. दक्षिणी दिल्ली
		7. दक्षिण पूर्वी दिल्ली
		8. पश्चिमी दिल्ली
7	गोवा	1. उत्तरी गोवा
		2. दक्षिण गोवा
8	गुजरात	1. अहमदाबाद
		2. अमरेली
		3. आणंद
		4. बनासकांठा
		5. भरूच
		6. भावनगर

		7. बोटाड
		8. देवभूमि द्वारका
		9. गिर सोमनाथ
		10. जामनगर
		11. जूनागढ़
		12. खेडा
		13. कच्छ
		14. मेहसाणा
		15. मोरबी
		16. नवसारी
		17. पाटन
		18. पोरबंदर
		19. राजकोट
		20. साबरकांठा
		21. सूरत
		22. सुरेंद्रनगर
		23. तापी
		24. वडोदरा
		25. वलसाड
9	हरियाणा	1. अंबाला
		2. भिवानी
		3. चरखी दादरी
		4. फरीदाबाद
		5. फतेहाबाद
		6. गुरुग्राम
		7. हिसार
		8. जींद
		9. कैथल
		10. करनाल
		11. कुरुक्षेत्र
		12. महेन्द्रगढ़
		13. पलवल
		14. रेवाड़ी
		15. रोहतक
		16. सिरसा
		17. सोनीपत
		18. यमुनानगर

10	हिमाचल प्रदेश	1. हमीरपुर
		2. कांगड़ा
		3. मंडी
11	जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू
		2. कटुआ
		3. सांबा
		4. श्रीनगर
		5. उधमपुर
12	झारखंड	1. बोकारो
		2. धनबाद
		3. पूर्वी सिंहभूम
		4. गढ़वा
		5. रांची
		6. देवघर
13	कर्नाटक	1. बागलकोट
		2. बेलगावी
		3. बेंगलुरु शहरी
		4. दक्षिण कन्नड
		5. दावनगेरे
		6. धारवाड़
		7. गदग
		8. गुलबर्गा
		9. हसन
		10. कोलार
		11. मांडया
		12. मैसूर
		13. रायचुर
		14. शिमोगा
		15. तुमकुर
		16. उडुपी
		17. उत्तर कन्नड
		18. विजयपुर ( बीजापुर )
		19. चिक्कामगलुरु
		20. बेल्लारी
14	केरल	1. अलाप्पुझा
		2. एर्नाकुलम
		3. कन्नूर

		4. कासरगोड
		5. कोल्लम
		6. कोट्टायम
		7. कोझीकोड
		8. मलाप्पुरम
		9. पलक्कड
		10. पथानामथिट्टा
		11. तिरुवनंतपुरम
		12. त्रिशूर
		13. वायनाड
15	मध्य प्रदेश	1. बालाघाट
		2. भोपाल
		3. छतरपुर
		4. छिंदवाड़ा
		5. देवास
		6. ग्वालियर
		7. इंदौर
		8. जबलपुर
		9. कटनी
		10. मुरैना
		11. रतलाम
		12. रीवा
		13. सतना
		14. उज्जैन
16	महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
		2. अकोला
		3. अमरावती
		4. औरंगाबाद
		5. चंद्रपुर
		6. धुले
		7. जलगांव
		8. जलना
		9. कोल्हापुर
		10. लातूर
		11. मुंबई शहर
		12. मुंबई उपनगरीय
		13. नागपुर

		14. नांदेड
		15. नंदुरबार
		16. नासिक
		17. पालघर
		18. परभनी
		19. पुणे
		20. रायगढ
		21. रत्नागिरि
		22. सांगली
		23. सतारा
		24. सिंधुदुर्ग
		25. सोलापुर
		26. ठाणे
		27. वर्धा
		28. यवतमाल
17	ओडिशा	1. बालासोर
		2. भद्रक
		3. कटक
		4. गंजाम
		5. जाजपुर
		6. खोरधा
		7. मयूरभंज
		8. पुरी
		9. संबलपुर
18	पुडुचेरी	1. पुडुचेरी
19	पंजाब	1. अमृतसर
		2. बरनाला
		3. भठिंडा
		4. फतेहगढ साहिब
		5. फाजिल्का
		6. फिरोजपुर
		7. गुरदासपुर
		8. होशियारपुर
		9. जालंधर
		10. कपूरथला
		11. लुधियाना
		12. मलेरकोटला

		13. मनसा
		14. मोगा
		15. पठानकोट
		16. पटियाला
		17. संगरूर
		18. शहीद भगत सिंह नगर
		19. श्री मुक्तसर साहिब
20	राजस्थान	1. अजमेर
		2. अलवर
		3. बांसवाड़ा
		4. भीलवाड़ा
		5. बीकानेर
		6. चुरू
		7. हनुमानगढ़
		8. जयपुर
		9. झुंझुनूं
		10. जोधपुर
		11. कोटा
		12. नागौर
		13. पाली
		14. सवाई माधोपुर
		15. सीकर
		16. सिरोही
		17. श्रीगंगानगर
		18. उदयपुर
		19. जालौर
21	तमिलनाडु	1. चेन्नई
		2. कोयंबटूर
		3. कुड्डालोर
		4. धर्मपुरी
		5. डिंडीगुल
		6. इरोड
		7. कल्लाकुरिची
		8. कन्याकुमारी
		9. करूर
		10. कृष्णागिरी
		11. मदुरै



		12. नागपट्टिनम
		13. नमाक्काल
		14. पुदुक्कोट्टुई
		15. रामनाथपुरम
		16. सलेम
		17. शिवगंगा
		18. तेनकासी
		19. तंजावुर
		20. थेनी
		21. थूथुकुडी
		22. तिरुचिरापल्ली
		23. तिरुनेलवेली
		24. तिरुपथुर
		25. तिरुपुर
		26. तिरुवन्नामलाई
		27. तिरुवरुर
		28. वेल्लोर
		29. विलुप्पुरम
22	तेलंगाना	1. हैदराबाद
		2. खम्मम
		3. मंचेरियल
		4. मेडचल-मल्काजगिरी
		5. नलगोंडा
		6. निजामाबाद
		7. पेद्दापल्ली
		8. रंगारेड्डी
		9. वारंगल ग्रामीण
		10. वारंगल शहरी
		11. करीमनगर
		12. महबूबनगर
23	त्रिपुरा	1. उत्तरी त्रिपुरा
		2. पश्चिम त्रिपुरा
24	उत्तर प्रदेश	1. आगरा
		2. प्रयागराज
		3. अंबेडकरनगर _
		4. औरैया
		5. आजमगढ़

		6. बलिया
		7. बाराबंकी
		8. बरेली
		9. भदोही
		10. बदायूं
		11. देवरिया
		12. इटावा
		13. फैजाबाद
		14. गौतमबुद्ध नगर
		15. गाज़ियाबाद
		16. गोरखपुर
		17. जौनपुर जिला
		18. झांसी
		19. कानपुर नगर
		20. लखनऊ
		21. मथुरा
		22. मेरठ
		23. मिर्जापुर
		24. मुरादाबाद
		25. मुजफ्फरनगर
		26. प्रतापगढ़
		27. रायबरेली
		28. सहारनपुर
		29. शाहजहांपुर
		30. वाराणसी
		31. बस्ती
25	उत्तराखंड	1. देहरादून
		2. हरिद्वार
		3. नैनीताल
		4. पौड़ी गढ़वाल
		5. पिथौरागढ़
26	पश्चिम बंगाल	1. अलीपुरद्वार
		2. बांकुड़ा
		3. बीरभूमि
		4. दक्षिण दिनाजपुर
		5. दार्जिलिंग
		6. हुगली

	7. हावड़ा
	8. जलपाईगुड़ी
	9. कूचबिहार
	10. कोलकाता
	11. मालदा
	12. मुर्शिदाबाद
	13. नादिया
	14. उत्तर 24 परगना
	15. पश्चिम बर्धमान
	16. पश्चिम मेदिनीपुर
	17. पूर्व बर्धमान
	18. पूर्व मेदिनीपुर
	19. पुरुलिया
	20. दक्षिण 24 परगना
	21. उत्तर दिनाजपुर

[फा. सं. वी-6/1/2017-बीआईएस(भाग-2)]

विनीत माथुर, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः-** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), का.आ. 205(अ), तारीख 15 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. 3513(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2020, का.आ. 2102(अ), तारीख 1 जून, 2021, का.आ. 2481(अ), तारीख 23 जून, 2021, का.आ. 1594(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2022, का.आ. 1047(अ), तारीख 6 मार्च, 2023 और का.आ. 1555(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Consumer Affairs)**

**ORDER**

New Delhi, the 6th September, 2023

**S.O. 3967(E).**—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 14 read with sub-sections (2) and (3) of section 15, sub-sections (1) and (2) of section 16, section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, further to amend the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, namely:-

1. (1) This Order may be called the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Third Amendment) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, for ANNEXURE, the following ANNEXURE shall be substituted, namely:-

## “ANNEXURE

Serial Number	State/Union Territory	District
(1)	(2)	(3)
1	Andhra Pradesh	1. Anantapur
		2. Annamayya
		3. Dr. B. R. Ambedkar Konaseema
		4. East Godavari
		5. Eluru
		6. Guntur
		7. Kadapa
		8. Krishna
		9. Kurnool
		10. N.T.R
		11. Nandyal
		12. Nellore
		13. Prakasham
		14. Srikakulam
		15. Visakhapatnam
		16. Vizianagaram
		17. West Godavari
2	Assam	1. Barpeta
		2. Bongaigaon
		3. Cachar
		4. Jorhat
		5. Kamrup Metro
		6. Nagaon
		7. Tinsukia
		8. Siva Sagar
3	Bihar	1. Begusarai
		2. Bhagalpur
		3. Bhojpur
		4. Buxar
		5. Darbhanga
		6. East Champaran
		7. Gaya
		8. Khagaria
		9. Kishanganj
		10. Madhubani
		11. Munger
		12. Muzaffarpur
		13. Nalanda
		14. Nawada
		15. Patna
		16. Rohtas
		17. Samastipur
		18. Saran
		19. Sitamarhi
		20. Saharsa
		21. Siwan
		22. Madhepura
		23. Purnea
4	Chandigarh	1. Chandigarh
5	Chhattisgarh	1. Bilaspur
		2. Durg
		3. Raipur
		4. Rajnandagaon
6	Delhi	1. Central Delhi
		2. East Delhi
		3. New Delhi
		4. North Delhi
		5. North West Delhi

		6. South Delhi
		7. South east Delhi
		8. West Delhi
7	Goa	1. North Goa
		2. South Goa
8	Gujarat	1. Ahmedabad
		2. Amreli
		3. Anand
		4. Banaskantha
		5. Bharuch
		6. Bhavnagar
		7. Botad
		8. Devbhoomi Dwarka
		9. Gir Somnath
		10. Jamnagar
		11. Junagadh
		12. Kheda
		13. Kutch
		14. Mehsana
		15. Morbi
		16. Navsari
		17. Patan
		18. Porbandar
		19. Rajkot
		20. Sabarkantha
		21. Surat
		22. Surendranagar
		23. Tapi
		24. Vadodara
		25. Valsad
9	Haryana	1. Ambala
		2. Bhiwani
		3. Charkhi Dadri
		4. Faridabad
		5. Fatehabad
		6. Gurugram
		7. Hissar
		8. Jind
		9. Kaithal
		10. Karnal
		11. Kurukshetra
		12. Mahendragarh
		13. Palwal
		14. Rewari
		15. Rohtak
		16. Sirsa
		17. Sonipat
		18. Yamuna Nagar
10	Himachal Pradesh	1. Hamirpur
		2. Kangra
		3. Mandi
11	Jammu & Kashmir	1. Jammu
		2. Kathua
		3. Samba
		4. Srinagar
		5. Udhampur
12	Jharkhand	1. Bokaro
		2. Dhanbad
		3. East Singhbhum
		4. Garhwa
		5. Ranchi
		6. Deoghar

13	Karnataka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagalkot</li> <li>2. Belagavi</li> <li>3. Bengaluru urban</li> <li>4. Dakshina kannada</li> <li>5. Davanagere</li> <li>6. Dharwad</li> <li>7. Gadag</li> <li>8. Gulbarga</li> <li>9. Hassan</li> <li>10. Kolar</li> <li>11. Mandya</li> <li>12. Mysore</li> <li>13. Raichur</li> <li>14. Shimoga</li> <li>15. Tumkur</li> <li>16. Uduppi</li> <li>17. Uttara kannada</li> <li>18. Vijayapura (Bijapur)</li> <li>19. Chikkamagaluru</li> <li>20. Bellary</li> </ol>
14	Kerala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alappuzha</li> <li>2. Ernakulam</li> <li>3. Kannur</li> <li>4. Kasaragod</li> <li>5. Kollam</li> <li>6. Kottayam</li> <li>7. Kozhikode</li> <li>8. Malappuram</li> <li>9. Palakkad</li> <li>10. Pathanamthitta</li> <li>11. Thiruvananthapuram</li> <li>12. Thrissur</li> <li>13. Wayanad</li> </ol>
15	Madhya Pradesh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balaghat</li> <li>2. Bhopal</li> <li>3. Chhatarpur</li> <li>4. Chhindwara</li> <li>5. Dewas</li> <li>6. Gwalior</li> <li>7. Indore</li> <li>8. Jabalpur</li> <li>9. Katni</li> <li>10. Morena</li> <li>11. Ratlam</li> <li>12. Rewa</li> <li>13. Satna</li> <li>14. Ujjain</li> </ol>
16	Maharashtra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmednagar</li> <li>2. Akola</li> <li>3. Amravati</li> <li>4. Aurangabad</li> <li>5. Chandrapur</li> <li>6. Dhule</li> <li>7. Jalgaon</li> <li>8. Jalna</li> <li>9. Kolhapur</li> <li>10. Latur</li> <li>11. Mumbai city</li> <li>12. Mumbai suburban</li> <li>13. Nagpur</li> <li>14. Nanded</li> <li>15. Nandurbar</li> </ol>

		16. Nashik
		17. Palghar
		18. Parbhani
		19. Pune
		20. Raigad
		21. Ratnagiri
		22. Sangli
		23. Satara
		24. Sindhudurg
		25. Solapur
		26. Thane
		27. Wardha
		28. Yavatmal
17	Odisha	1. Balasore
		2. Bhadrak
		3. Cuttack
		4. Ganjam
		5. Jajpur
		6. Khordha
		7. Mayurbhanj
		8. Puri
		9. Sambalpur
18	Puducherry	1. Puducherry
19	Punjab	1. Amritsar
		2. Barnala
		3. Bathinda
		4. Fatehgarh Sahib
		5. Fazilka
		6. Ferozepur
		7. Gurdaspur
		8. Hoshiarpur
		9. Jalandhar
		10. Kapurthala
		11. Ludhiana
		12. Malerkotla
		13. Mansa
		14. Moga
		15. Pathankot
		16. Patiala
		17. Sangrur
		18. Shaheed Bhagat Singh Nagar
		19. Sri Muktsar Sahib
20	Rajasthan	1. Ajmer
		2. Alwar
		3. Banswara
		4. Bhilwara
		5. Bikaner
		6. Churu
		7. Hanumangarh
		8. Jaipur
		9. Jhunjhunu
		10. Jodhpur
		11. Kota
		12. Nagaur
		13. Pali
		14. Sawai Madhopur
		15. Sikar
		16. Sirohi
		17. Sriganganagar
		18. Udaipur
		19. Jalore

21	Tamil Nadu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chennai</li> <li>2. Coimbatore</li> <li>3. Cuddalore</li> <li>4. Dharmapuri</li> <li>5. Dindigul</li> <li>6. Erode</li> <li>7. Kallakuruchi</li> <li>8. Kanyakumari</li> <li>9. Karur</li> <li>10. Krishnagiri</li> <li>11. Madurai</li> <li>12. Nagapattinam</li> <li>13. Namakkal</li> <li>14. Pudukkottai</li> <li>15. Ramanathapuram</li> <li>16. Salem</li> <li>17. Sivaganga</li> <li>18. Tenkasi</li> <li>19. Thanjavur</li> <li>20. Theni</li> <li>21. Thoothukudi</li> <li>22. Tiruchirappalli</li> <li>23. Tirunelveli</li> <li>24. Tirupathur</li> <li>25. Tirupur</li> <li>26. Tiruvannamalai</li> <li>27. Tiruvarur</li> <li>28. Vellore</li> <li>29. Viluppuram</li> </ol>
22	Telangana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hyderabad</li> <li>2. Khammam</li> <li>3. Mancherial</li> <li>4. Medchal-Malkajgiri</li> <li>5. Nalgonda</li> <li>6. Nizamabad</li> <li>7. Peddapalli</li> <li>8. Rangareddy</li> <li>9. Warangal (Rural)</li> <li>10. Warangal (Urban)</li> <li>11. Karimnagar</li> <li>12. Mahabubnagar</li> </ol>
23	Tripura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. North Tripura</li> <li>2. West Tripura</li> </ol>
24	Uttar Pradesh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agra</li> <li>2. Prayagraj</li> <li>3. Ambedkar Nagar</li> <li>4. Auraiya</li> <li>5. Azamgarh</li> <li>6. Ballia</li> <li>7. Barabanki</li> <li>8. Bareilly</li> <li>9. Bhadohi</li> <li>10. Budaun</li> <li>11. Deoria</li> <li>12. Etawah</li> <li>13. Faizabad</li> <li>14. Gautam Buddha Nagar</li> <li>15. Ghaziabad</li> <li>16. Gorakhpur</li> <li>17. Jaunpur District</li> <li>18. Jhansi</li> <li>19. Kanpur Nagar</li> </ol>



		20. Lucknow
		21. Mathura
		22. Meerut
		23. Mirzapur
		24. Moradabad
		25. Muzaffarnagar
		26. Pratapgarh
		27. Raebareli
		28. Saharanpur
		29. Shahjahanpur
		30. Varanasi
		31. Basti
25	Uttarakhand	1. Dehradun
		2. Haridwar
		3. Nainital
		4. Pauri Garhwal
		5. Pithoragarh
26	West Bengal	1. Alipurduar
		2. Bankura
		3. Birbhum
		4. Dakshin Dinajpur
		5. Darjeeling
		6. Hooghly
		7. Howrah
		8. Jalpaiguri
		9. Coochbehar
		10. Kolkata
		11. Malda
		12. Murshidabad
		13. Nadia
		14. North 24 Parganas
		15. Paschim Bardhaman
		16. Paschim Medinipur
		17. Purba Bardhaman
		18. Purba Medinipur
		19. Purulia
		20. South 24 Parganas
		21. Uttar Dinajpur

[F. No. V-6/1/2017-BIS(Part-2)]

VINEET MATHUR, Jt. Secy.

**Note:-** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 205 (E), dated the 15<sup>th</sup> January, 2020 and subsequently amended *vide* number S.O. 3513 (E), dated the 9<sup>th</sup> October, 2020, S.O. 2102 (E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2021, S.O. 2481 (E), dated the 23<sup>rd</sup> June, 2021, S.O. 1594 (E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2022, S.O. 1047 (E), dated the 6<sup>th</sup> March, 2023, and S.O. 1555 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2023.